

सुनने की शक्ति में कमी वालों के साथ मैत्रीभाव कैसे बनायें

जब आप सुनने की शक्ति में कमी वाले किसी व्यक्ति के साथ हों :



उस व्यक्ति की ओर मुँह करके खड़े हों ताकि आपके बोलने पर वह आपके चेहरे को देख सकें



साफ और धीमी गति में बोलिए, चिल्लाए मत !



बोलते समय होंठों की क्रिया स्वाभाविक रहे बिगड़ी हुई न हो



एक समय पर एक ही व्यक्ति बात करे



आसपास के शोर को कम करें या अपेक्षाकृत शांत जगह पर चले जाए



“मैं आपको बाद में बताऊँगा”, कहने से बचें



सुनने की शक्ति में कमी वाले लोगों को हर गतिविधि में शामिल करें

